

खेल के मैदान में उत्कृष्टता हासिल करना गीता का ज्ञान अर्जित करने समान है-राज्यपाल 13-7-2017

रोहतक, 13 जुलाई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) खेल क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के दृष्टिगत राष्ट्र की खेल-नर्सरी बन कर उभर रहा है। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर एमडीयू के खिलाड़ी नई ऊंचाईयों को छूते हुए विश्वविद्यालय, हरियाणा प्रदेश तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं। यह बड़े हर्ष और गौरव की बात है। ये उद्गार हरियाणा के राज्यपाल तथा एमडीयू के कुलाधिपति प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वार्षिक खेल पारितोषिक वितरण समारोह 2016-2017 में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए।

हरियाणा के राज्यपाल-कुलाधिपति प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा कि खेल के मैदान में उत्कृष्टता हासिल करना गीता का ज्ञान अर्जित करने समान है। उनका कहना था कि खेल का मैदान सही मायने में साधना का क्षेत्र है। जीवन में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी है। खेलों में प्रतिभागिता से स्पोर्ट्स मैनिशिप की भावना भी मजबूत होती है, ऐसा उनका कहना था।

राज्यपाल-कुलाधिपति प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि हरियाणा सरकार तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय खेल तथा खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश तथा विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट खेल संस्कृति विकसित हुई है। प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी इस अवसर पर प्रत्येक विजयी खिलाड़ी को एक किलो देसी घी देने की घोषणा की।

इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश को दिशा देता है, विशेष रूप से खेल क्षेत्र में हरियाणा ने पूरे राष्ट्र में नए कीर्तिमान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सन् 2015 में प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई खेल नीति की वजह से प्रदेश खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल-कूद गतिविधियों के जरिए प्रदेश के नौजवानों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे रही है। मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने उपस्थित युव जन का आह्वान किया कि- सब खेलें, खूब खेलें तथा अच्छा खेलें।


कार्यक्रम के प्रारंभ में एमडीयू कुलपति प्रो. बिजेन्द्र कुमार पूनिया ने स्वागत भाषण दिया। कुलपति प्रो. पूनिया ने अपने भाषण में एमडीयू की खेल क्षेत्र की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही, मदवि की पिछले 18 महीनों में उनके कार्यकाल की प्रगति यात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर को- लाइफ टाइम एचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया।

हरियाणा के राज्यपाल-कुलाधिपति प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने खेल क्षेत्र की ओवरऑल ट्राफी महिला वर्ग में एमकेजेके महाविद्यालय, रोहतक तथा पुरूष वर्ग की ट्राफी जाट महाविद्यालय, रोहतक को प्रदान की। सांस्कृतिक खेल की उपलब्धियों के लिए ओवरऑल ट्राफी जीवीएम गल्लूज कालेज, सोनीपत तथा रनर्स अप ट्राफी डीएवी शताब्दी कालेज, फरीदाबाद को प्रदान की गई।

इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में लगभग 60 लाख रुपए नगद पुरस्कार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों, टीमों, प्रशिक्षकों एवं प्रबंधकों को प्रदान किया गया। तैगोर सभागार में आयोजित इस समारोह में विश्वविद्यालय की खेल-कूद गतिविधियों संबंधित वार्षिक रिपोर्ट तथा यूनिवर्सिटी आउटरिच प्रोग्राम वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम संचालन निदेशक युवा कल्याण डा. जगबीर राठी ने किया। खेल पारितोषिक वितरण समारोह का संयोजन-समन्वयन निदेशक खेल डा. डीएस दुल ने किया। आभार प्रदर्शन रजिस्ट्रार जितेन्द्र भारद्वाज ने किया।

इस कार्यक्रम में डीन, एकेडमिक एफेयर्स प्रो. अजय कुमार राजन, डीन, स्टूडेंट्स वेल्फेयर प्रो. राजकुमार, डीन, कालेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रो. युद्धवीर सिंह, रजिस्ट्रार जितेन्द्र भारद्वाज, एमडीयू खेल परिषद के सदस्यगण डा. केसी अरोड़ा, डीन, मानविकी प्रो. सुरेन्द्र कुमार, प्रॉक्टर प्रो. सुरेश चन्द्र मलिक, निदेशक आउटरिच प्रोग्राम प्रो. महताब सिंह, एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डा. रणबीर सिंह गुलिया, लाइब्रेरियन डा. सतीश मलिक, खेल उपनिदेशिका डा. शकुंतला बैनीवाल, पंजाब विवि के सेवानिवृत्त खेल निदेशक डा. बीएल गुप्ता समेत संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राध्यापक, अन्य गणमान्य अतिथि, छात्रगण, पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रबंधक आदि उपस्थित रहे











ANNUAL SPORTS PRIZE DISTRIBUTION FUNCTION

13th July, 2017

Chief Guest

Prof. **Ke. P. Singh Solanki**

Hon'ble Governor Haryana, Chancellor M



Council